



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 888 राँची, मंगलवार

18 सितम्बर, 2018 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

31 जुलाई, 2018

**संख्या:- 8/आरोप-15/2014 का. 5758--** झारखण्ड राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री रविन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, गन्ना एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), सम्प्रति- अवर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध केन्द्रीय सहकारी बैंक, धनबाद में ऋण माफी/ऋण राहत योजना में हुए घोटाले की जाँच से सम्बन्धित संचिका में गलत टिप्पणी अंकित करते हुए मामले को Divert करने सम्बन्धी आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है ।

2. श्री रविन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव के विरुद्ध प्रशासी विभाग द्वारा प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद चन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री कपिल देव पण्डित, अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,  
सरकार के अवर सचिव।

-----